



नई दिल्ली। आईपीएल फ़इनल में शतकजमाने केबाद सुर्खियों में आई रथिमान साहा

ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डीलेड टेस्ट में बना 35 रन के इससे बेहतर पारी बताया। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए आईपीएल फ़इनल में शतक जमाने वाले साहा ने प्रेस ट्रेस्ट से कहा, “भले ही परिष्कृत पूरी तरह अलग हो लेकिन मैं डीलेड टेस्ट की 35 रन की पारी और छठे विकेट के लिए वरिष्ठ कोहली के साथ शतकीय साझेदारी के अपने दिल के अधिक करीब कहूंगा।”

उन्होंने कहा, “मुझे आईपीएल फ़इनल में अपने शतक पर गर्व है लेकिन वह टेस्ट मैच था। वरिष्ठ शानदार बल्लेबाजी कर रहा था और मैंने उसके पहले टेस्ट शतक में उसका साथ दिया।”

उन्होंने कहा, “रथिमान हैरिस, बेन हलिफेनहास और पीटर सडिल उस समय गेंदबाजी कर रहे थे। मैंने 94 गेंदें खेली और वह मेरा दूसरा टेस्ट था। आउट होने तक मैं रफ़्तार और स्वगि के आराम से खेल रहा था जिससे मुझे आत्मविश्वास मिला कि मैं इस स्तर पर खेल सकता हूँ। आईपीएल का यह शतक अच्छा था लेकिन स्वीकार करना होगा कि वेन्नेटार ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया। हम उन्हें रनरेट बरकार रखने से रोक नहीं सके।”

साहा ने यह भी बताया कि उन्होंने सुनील नारायण का सामना कैसे किया जिसके खिलाफ उन्होंने आठ में से चार छक्के लगाए थे। साहा ने कहा, “मैं पहली बार नारायण के खेल रहा था लहिजा मैंने तय किया कि मैं बैकफुट पर टिककर अतिरिक्त सेकंड का इंतजार करूंगा ताकि गेंद के भांप सकूँ। इससे मुझे स्लॉग ओवरों में अच्छे प्रदर्शन में मदद मिली।”

यह पूछने पर कि क्या वह आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विकेटकीपर है, उन्होंने कहा, “बलिवुल्ल नहीं। मैं विशेषज्ञ विकेटकीपर हूँ जिसका काम बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करना है। विकेटकीपिंग मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता थी, है और रहेगी।”

उन्होंने कहा, “मसाल के तौर पर बांग्लादेश के आगामी दौर पर मैं छठे या सातवें नंबर से ऊपर बल्लेबाजी नहीं करूंगा। मैं अजकिम रहाणे, चेतेश्वर पुजारा या सुरेश रैना से पहले नहीं उतरूंगा। मैं खुद को विकेटकीपर बल्लेबाज मानता हूँ।”

(भाषा)